

तुरंत रिलीज के लिए

**सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और सी.बी.सी. के साथ, स्प्रिंगडेल  
ब्रैम्पटन लाइब्रेरी में माई ब्रैम्पटन डे मनाएं**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 मार्च, 2022) – सी.बी.सी. (CBC), सिटी का जशन मना रहा है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) और आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) के साथ साझेदारी में, 30 मार्च को, स्प्रिंगडेल ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Springdale Brampton Library) में माई ब्रैम्पटन डे (My Brampton Day) नामक कार्यक्रम पेश कर रहा है।

**माई ब्रैम्पटन डे**

स्प्रिंगडेल ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

10705 ब्रैमली रोड (10705 Bramalea Road)

बुधवार, 30 मार्च

**कार्यक्रमों का शेड्यूल**

- सुबह 11 बजे – ब्रैम्पटन के कलाकार, एबिओला इडोउ (Abiola Idowu) के द्वारा सी.बी.सी. टोरोंटो (CBC Toronto) के द्वारा लगाई गई कलाकृति का पर्दा उठाना
- दोपहर 12 बजे - एबिओला इडोउ के साथ इंटरएक्टिव आर्ट एक्टिवेशन, जिसकी सह-प्रस्तुति ए.सी.सी.आई.डी.ए. द्वारा की जा रही है
- शाम 5:30 बजे – सी.बी.सी. टोरोंटो का सुनने वाला इंटरएक्टिव सेशन
- शाम 7:30 बजे – सी.बी.सी. टोरोंटो के ब्रैम्पटन ब्यूरो (Brampton Bureau) के नव नानवा (Nav Nanwa) की मेजबानी में पैनल चर्चा, *ऑल रोड्स लीड टू ब्रैम्पटन (All Roads Lead to Brampton)*

**एबिओला इडोउ के साथ, मुफ्त लाइव विंडो मुराल आर्टिस्ट एक्टिवेशन**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) के साथ साझेदारी में, लाइब्रेरी को अपने कैनवास में बदलने के अवसर हेतु, लोकल कलाकार एबिओला इडोउ से जुड़ें। भागीदारों को लाइब्रेरी में शीशे की बड़ी खिड़कियों पर रेखा चित्र और ड्राइंग बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हर उम्र के व्यक्तियों का स्वागत है, कोई अनुभव जरूरी नहीं है।

टिकटें मुफ्त हैं और पुष्टि किए गए मेहमानों को, सी.बी.सी. टोरोंटो के ब्रैम्पटन-प्रेरित स्वैग पैक का सीमित एडिशन मिलेगा। विवरणों और रजिस्टर करने के लिए, [cbc.ca](http://cbc.ca) पर जाएं।

सी.बी.सी. टोरोंटो ने, 2021 के पतझड़ में एक खास ब्रैम्पटन ब्यूरो बनाया था। समर्पित पत्रकारों और निर्माताओं की टीम, लोकल कम्युनिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हुए, ब्रैम्पटन में ज़मीनी स्तर पर काम करती रही है।

## हवाले

“हम सी.बी.सी. के जशन और स्प्रिंगडेल लाइब्रेरी ब्रांच में, उनके माई ब्रैम्पटन डे कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर हमारे शहर की कहानी सुनाने के लिए उत्साहित हैं। ब्रैम्पटन की विविधता, संस्कृति और रचनात्मकता ही, इस शहर को इतना खास बनाती है और कम्युनिटी के साथ इसका जशन मनाना बहुत ही शानदार है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन को खास जगह के तौर पर मान्यता देने पर सी.बी.सी. का धन्यवाद, जो यह है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि ए.सी.सी.आई.डी.ए. और लोकल कलाकार, एबिओला इडोउ, हमारे विविध मोजैक का जशन मनाने और पब्लिक आर्ट के द्वारा, कम्युनिटी के साथ जुड़ते हुए, अपनी रचनात्मकता पेश कर रहे हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; काउंसिल पैनल मेम्बर, आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी

“सी.बी.सी. टोरोंटो को, कम्युनिटी और शहर में होने वाली कुछ शानदार चीजों पर रोशनी डालने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्रैम्पटन लाइब्रेरी के साथ साझेदारी करने पर बेहद खुशी है। हम ब्रैम्पटन के निवासियों से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ने के अवसर के लिए उत्साहित हैं।”

- प्रसन्ना राजगोपालन (Prasanna Rajagopalan), डायरेक्टर, जर्नलिज्म + प्रोग्रामिंग, सी.बी.सी. टोरोंटो

“ब्रैम्पटन लाइब्रेरी को, इस रोमांचक कार्यक्रम पर सी.बी.सी. के साथ साझेदारी करने पर बेहद खुशी है। हमें व्यक्तिगत कार्यक्रमों में एक बार फिर लोगों का स्वागत करने पर बहुत खुशी है। हम ब्रैम्पटन के निवासियों को, उनकी कम्युनिटी को दुबारा स्पष्ट करने और नए संबंधों के लिए प्रेरित करने का अवसर देने के लिए उत्साहित हैं।”

- टोड काइल (Todd Kyle), चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

“ए.सी.सी.आई.डी.ए. को अबिओला की नई कलाकृति का पर्दा उठाने और हमारे इंटरएक्टिव विंडो इंस्टॉलेशन सहित - इस खास दिन को सी.बी.सी. और ब्रैम्पटन लाइब्रेरी में हमारे दोस्तों के साथ साझेदारी करने पर बेहद खुशी है। ब्रैम्पटन एक मोजैक है और यह कला

तथा संस्कृति के लिए बेहद उपयुक्त जगह है। हम इस खास तरीके से लोकल प्रतिभा और संसाधनों को दर्शाने के लिए उत्साहित हैं, जो हमारा संगठन, आर्ट्स कम्युनिटी के लिए पेश करता है।"

- नुवी सिद्धू (Nuvi Sidhu), चेयर, आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.)

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)